

November 15, 2024

Ref:- GHL/2024-25/EXCH/85

The General Manager
Dept. of Corporate Services
BSE Limited,
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051

Scrip Code: 543654 Symbol: MEDANTA

Sub: Newspaper Publication - Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended September 30, 2024

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith, the copies of Newspaper clippings of the Unaudited Financial Results of the Company, for the Second Quarter and half year ended September 30, 2024, published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on Friday, November 15, 2024.

This is for your information and record.

Thanking You,

For Global Health Limited

Rahul Ranjan Company Secretary & Compliance Officer M. No. A17035

Encl: a/a













Half Year ended

Quarter ended

FINANCIAL EXPRESS

GLITTEK GRANITES LIMITED. Registered Office: Plot No. 42, KIADB Industrial Area, Hoskote, Bangalore-562114. www.glittek.com, E-mail: info@glittek.com CIN: L14102KA1990PLC023497 Extract of the Unaudited Financial Results for the guarter ended September 30, 2024 (Rs. in Lakhs, except share and per share data, unless otherwise stated Year to date figures for the 3 Months ended ended Quarter ended current period in the previous 31.03.2024 ended 30.09.2024 year 30.09.2023 (Audited) 30.09.2024 (Audited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 129.98 236.50 705.90 Total Revenue from Operations (including other income) Net Profit for the period (before tax and Exceptional Items) (1,559.51)(153.89)(614.41)(1,568.51) 1.253.67) (153.89)(614.41) Net Profit for the period before tax (after Exceptional Items) Net Profit for the period after tax (after Extraordinary items) 1,253.67) (1,568.51)(113.55)(614.41)Total Comprehensive Income (Comprising Profit / (Loss) after tax and Other Comprehensive Income after tax) 1.30 1.89 4 95 Equity Share Capital (Face value of share: Rs.5/-) 259.59 259.59 259.59 259.59 Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the (2,400.13) (2,400.13)(832.92)(832.92)Balance Sheet of previous year) 8 Earnings per share of Rs. 10/- each a) Basic & b) Diluted -4.83 -6.04 -0.44

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and the Company's website www.glittek.com Place: Bangalore, Date: 14.11.2024 By Order of the Board For Glittek Granites Ltd. Ashoke Agarwal, Chairman & Managing Director

ENSER COMMUNICATIONS LIMITED

(CIN: L64200MH2008PLC182752) Registered Office: 5th Floor 501 - 506, Arihant Aura, Turbhe, Navi Mumbai Sanpada, Thane, Maharashtra -400703, Telephone No. +91-124-4258077 Email Id: compliance@enser.co.in . Website: www.enser.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and 110, and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, as amended (the "Act"), read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended (the "Management Rules"), General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23,

2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022, and 09/2023 dated September 25, 2023 and 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the "MCA Circulars"), Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "LODR Regulations") and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the approval of members of Enser Communications Limited (the "Company") is sought for the following resolutions by way of remote e-voting ("e-voting") process:

Sr. no.	Description of Special Business
1	To increase the Authorised Share Capital of the Company and amend the Capital clause in the Memorandum of Association.
2	To approve the issuance of Bonus Share.
3	Approval for sub-division/split of face value of equity shares of the company of Rs 10/- each to Rs. 2/- each.
4	Alteration in the capital clause of memorandum of association of the company

In compliance with the MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice on Thursday, November 14, 2024 by electronic mode to those Members of the Company whose email address(es) are registered with the Company / Depository Participants as on Friday, November 08, 2024. Postal Ballot Notice together with explanatory statement and instruction for E-voting is available on the website of the Company at www.enser.co.in, on the website of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed i.e. www.nseindia.com and on the website of CDSL at www.cdslindia.com.

consequent to sub-division of face value of shares of the company.

In accordance with the provisions of the MCA circulars, Members can vote only through evoting process. The voting rights of the Members shall be reckoned on the basis of the equity shares of the Company held by them as on the Cut-off Date. Any person who is not a shareholder of the Company as on the Cut-off Date shall treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

The Company has engaged the services of CDSL as the agency to provide the facility for Evoting to its members. The E-voting period commences on Friday, November 15, 2024 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Saturday, December 14, 2024 at 5.00 p.m. (IST) after that the Evoting will be blocked by CDSL The Board has appointed M/s Neena Deshpande & Co., Company Secretary (Membership)

No. FCS- 7240), Practicing Company Secretaries, as the scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer will submit her report to the Chairman or any other person authorized by the Chairman after the completion of scrutiny of the e-voting, and the result will be announced within two working days from the conclusion of e-voting i.e. 5.00 PM (IST) on Saturday, December 14, 2024, and will also be displayed on the Company's website at www.enser.co.in and on the website of CDSL at www.cdslindia.com and communicated to the stock exchange where the shares of the Company are listed i.e. www.nseindia.com. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to

Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 21 09911. For Enser Communications Limited

Muskan Place: Gurugram Company Secretary and Compliance Officer Date: 14.11.2024

niyogin CIN: L65910TN1988PLC131102

NIYOGIN FINTECH LIMITED

Registered Office: MIG 944, Ground Floor, TNHB Colony, 1st Main Road, Velachery, Chennai, Tamil Nadu- 600042 Corporate Office: 311 & 312, 3rd Floor, Neelkanth Corporate IT Park, Kirol Road, Vidyavihar (W), Mumbai – 400086 **Tel No:** +91 22 62514646 | **Website:** www.niyogin.com | E-mail id: investorrelations@niyogin.in

NOTICE TO MEMBERS NOTICE is hereby given pursuant to Section 108, 110 and other applicable

provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('Act'), read with Rule 20 and Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('Rules'), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations') (including any statutory modifications(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA") vide General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No. 17 /2020 dated April 13, 2020, No. 22/2020 dated June 15, 2020, No. 33/2020 dated September 28, 2020, No. 39/2020 dated December 31, 2020, No. 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 08, 2021 3/2022 dated May 05, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 and 09/2024 dated September 19, 2024 (**"MCA Circulars"**) and any other applicable laws and regulations, to transact the special business as set out hereunder and in the Postal Ballot Notice dated November 11, 2024 ('Postal Ballot Notice') by passing special resolution by way of Postal Ballot only by voting through electronic means (remote e-voting):

Sr.No.	Description of the Resolution	Type of resolution
1	Appointment of Mr. Sudip Vatsal Thakor (DIN: 07222787) as an Independent Director of the Company	
2	Appointment of Ms. Katarina Racek (DIN: 10803186) as an Independent Director of the Company.	Special resolution
	1 1	

Members are hereby informed that:

1. The Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice through e-mails on Thursday, November 14, 2024, only to those members, who have registered their e-mail addresses with the Company/ Depository Participants/ Registrar and Transfer Agent of the Company - Link Intime India Private Limited ("Link Intime") and whose names appear in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (together referred as 'Depositories') as on Tuesday, November 12, 2024. Members holding shares in dematerialised mode and who have not registered their email addresses are requested to register/ update their email addresses with their Depository Participants.

2. The Postal Ballot Notice is also available on the website of the Company at Members are hereby informed that:

www.niyogin.com; the relevant section of the website of BSE Limited ("BSE" at www.bseindia.com on which the equity shares of the Company are liste and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com 3. In accordance with the MCA Circulars, hard copy of the Postal Ballot Notice alongwith postal ballot forms and pre-paid business reply envelope has not been sent to the Members and the communication of the assent or dissent of

The Postal Ballot Notice is also available on the website of the Company at

the Members will only take place through remote e-voting.

The Company has engaged the services of NSDL to offer its Members the facility to cast their vote by electronic means through e-voting facility, in compliance with Sections 108 and 110 of the Act read with Rules framed thereunder and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations.

The e-voting period commences on Monday, November 18, 2024 (9.00 A.M. IST and ends on Tuesday, December 17, 2024 (5.00 P.M.IST). During this period Members of the Company, holding shares either in physical form or demat form, as on Tuesday, November 12, 2024 (the "cut-off date") may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and the voting shall not be allowed beyond the said date and time. . Once the vote on the Resolution is exercised and confirmed by the Member,

he or she shall not be allowed to modify it subsequently. Any person who is not a member of the Company on the cut-off date should treat this Notice for Information purpose only. . The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-

up equity share capital of the Company as on the cut-off date. . The Board of Directors has appointed Mr. Mitesh J. Shah, Proprietor of M/s

Mitesh J. Shah & Associates, Company Secretaries (FCS 10070 & CP No: 12891), as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. . The result of the voting conducted through Postal Ballot (through remote

e-voting process) will be announced within two working days of conclusion of remote e-voting period. The said results along with the Scrutinizers' Report will be available on the website of the Company www.niyogin.com and will also be intimated to BSE Limited www.bseindia.com where the equity shares of the Company are listed in accordance with the provisions of the SEBI Listing Regulations. The Company will also display the results of the postal ballot at its registered office and corporate office. 0. The last date specified by the Company for remote e-voting i.e. December 17

2024 shall be the date on which the Resolutions shall be deemed to have been passed, if approved by the requisite majority. The instructions on the process of e-voting for members holding shares in

dematerialised and physical form as well as members who have not registered their email id have been provided in the Postal Ballot Notice. Members who have not registered their email id are requested to register/ update their email id by referring the process provided in the Postal Ballot Notice.

For any queries/grievances relating to voting by Electronic means, members are requested to refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 4886 7000 or send a request to Mr. Sagar S Gudhate, Senior Manager, National Securities Depository Limited, 3rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400051 at the designated email id: evoting@nsdl.com to get your grievances on e-voting addressed.

Date: November 14, 2024

Place: Mumbai

For Niyogin Fintech Limited

Company Secretary

Neha Daruka

ORAVEL STAYS LIMITED

Registered office: Ground Floor-001, Mauryansh Elanza, Shyamal Cross Road, Near Parekh Hospital, Satelite, Ahmedabad, Gujarat -380015, India Corporate Office: 4th Floor, Spaze Palazo, Sector 69, Gurugram, Haryana 122001 India CIN: U63090GJ2012PLC107088 | Phone: 079-41005020 & 0124-4487253 Email: secretarial@oyorooms.com | Web.: www.oyorooms.com

INFORMATION REGARDING 4™ EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE COMPANY FOR FINANCIAL YEAR 2024-25 TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO VIDEO MEANS lotice is hereby given that the 4th Extraordinary General Meeting ("EGM") of Oravel Stays Limited (the "Company") for the

financial year 2024-25 will be held on Monday, December 9, 2024 at 5:30 P.M. (IST) through Video-Conferencing/ Other Audio-Visual Means ("VC/ OAVM") without the physical presence of the members at a common venue, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder, read with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time, to transact the businesses as set out in the Notice of EGM. Members attending the EGM through VC/ OAVM will be counted for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Act. The Notice of the EGM will be sent only by email to those members whose email addresses are registered with the Company/ RTA/ Depository Participants. Members who have not registered/ updated their email addresses are required to comply with the following steps:

Members holding shares in physical form are requested to provide the Folio number, Name, scanned copy of the share

certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN and Aadhar card by email to the Company's RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in or to the Company at secretarial@oyorooms.com. Members, please note that as of the date of this notice, all shares are being held in dematerialised form only Members holding shares in dematerialized form are requested to register/ update their email addresses with the Depository

Participants with whom the demat account is maintained. The Company is providing the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means (i.e., remote e-voting before

the EGM and e-voting during the EGM) on the resolutions set out in the Notice of EGM. The instructions for joining the EGM through VC/ OAVM and the process of e-voting (including the manner in which members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address can cast their vote through e-voting) will form part of the Notice of EGM. Members are requested to carefully read all the notes set out in the EGM Notice, particularly, instructions for joining the EGM and the manner of casting votes through e-voting. Members can join and participate in the EGM only through VC/ OAVM facility only. The Notice convening the EGM will also be available on the Company's website at https://www.oyorooms.com/investor-relations

and the website of M/s. Link Intime India Pvt. Ltd (Voting Agency) i.e. https://instavote.linkintime.co.in/. This notice is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the

applicable circulars of the Ministry of Corporate Affairs. For Oravel Stays Limited

(Rs. In Lakhs)

Place: Gurugram Shivam Kumar Date: November 13, 2024 Company Secretary & Compliance Officer

Pushpsons Industries Limited

CIN: L74899DL1994PLC059950

Registered Office: B-40, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Email: info@pushpsons.com Phone: 011-41610121 Fax: 011-41058461

Extract of the Standalone Un-audited financial results for the quarter ended September 30, 2024

SI. No.	Particulars	3 Months ended 30/09/2024 (Un-audited)	3 Months ended 30/09/2023 (Un-audited)	Year ended 31/03/2024 (Audited)
1	Total income from operations	124.39	129.77	407.58
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	8.47	20.57	38.55
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.47	20.57	38.55
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.47	20.57	38.55
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	9.27	20.09	39.98
6	Paid up Equity Share Capital	527.05	527.05	527.05
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	0.00	0.00	-84.12
8	Securities Premium Account	0.00	0.00	0.00
9	Net Worth	0.00	0.00	442.93
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	0.00	0.00	0.00
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	0.00	0.00	0.00
12	Debt Equity Ratio	0.00	0.00	0.15
13	Earning Per Share (of Rs. 10/- each)(for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic:	0.20	0.43	0.86
	2. Diluted	0.20	0.43	0.86
14	Capital Redemption Reserve	0.00	0.00	0.00
15	Debenture Redemption Reserve	0.00	0.00	0.00
16	Debt Service Coverage Ratio	0.00	0,00	4.80
17	Interest Service Coverage Ratio	0.00	0.00	0.00

NOTES:

The above is an extract of the detailed format of Statement of Standalone Un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations. 2015. The full format of the quarterly and year ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com), and on the Company's website (www.pushpsons.com).

Previous period figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

for Pushpsons Industries Limited

Pankaj Jain Chairman (Director)

Place: New Delhi Dated: 14.11.2024 DIN: 00001923



Global Health Limited (formerly known as Global Health Private Limited)

CIN: L85110DL2004PLC128319

Regd. Office: Medanta Mediclinic, E-18, Defence Colony, New Delhi 110024, India Corp. Office: Medanta - The Medicity, Sector - 38, Gurugram, Haryana 122001, India Tel: +91 124 483 4060 | E-mail: compliance@medanta.org | Website: https://www.medanta.org

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED AND SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2024 (₹ in Million except EPS)

SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2024	Six months ended 30.09.2024	Quarter ended 30.09.2023
SI. No. 1 2 3 4 5		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Revenue from operations	9,565,55	18,176.32	8,504.46
2	Net profit for the period (before tax and exceptional items)	1,810.99	3,247.51	1,706.04
3	Net profit for the period before tax (after exceptional items)	1,810.99	3,247.51	1,706.04
4	Net profit for the period after tax (after exceptional items)	1,308.18	2,370.82	1,251.61
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1,315.66	2,358.03	1,261.20
6	Paid up equity share capital	537.09	537.09	536.81
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)*			
8	Earnings Per Share (of ₹ 2/- each) -			
	Basic:	4.87	8.83	4.66
	Diluted:	4.87	8.83	4.66

Reserves (excluding Revaluation Reserve) as on 31 March 2024 was ₹ 28,519.26 Million.

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED AND SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2024

SI. No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2024	Six months ended 30.09.2024	Quarter ended 30.09.2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Revenue from operations	6,646.06	12,760.55	5,860.16
2	Net profit for the period (before tax and exceptional items)	1,436.09	2,733.52	1,268.92
3	Net profit for the period before tax (after exceptional items)	1,436.09	2,733.52	1,268.92
4	Net profit for the period after tax (after exceptional items)	1,044.66	2,007.50	950.95
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1,051.77	1,995.62	957.56

Place: Gurugram

Date: 14 November 2024

1. These results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and accordingly approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 14 November 2024. The result have been subjected to the limited review by the statutory auditors of the Company. 2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under

Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the consolidated and standalone Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also available at the company's website https://www.medanta.org.

By order of the Board for Global Health Limited

Dr. Naresh Trehan Chairman and Managing Director

POLYMECHPLAST MACHINES LIMITED

Particulars

Date: 13th November, 2024

Particulars

Place: Vadodara

CIN: L24231GJ2000PLC038352

Registered Office: "Gold Coin House", 776, GIDC., Makarpura, Vadodara - 390 010, Gujarat. Phone: +91-7574063050 | E-mail: cs@polymechplast.com | Website: www.polymechplast.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2024

year ended.

Unadted (transled (transled) (transled (transled) (transled) (transled) (transled)

Half Year ended

		Quarter ended 30th September, 2024	Quarter ended 30th June, 2024			Half year ended 30th September, 2023	Year ended 31st March, 2024	Quarter ended 30th September, 2824	Quarter ended 30th June, 2024	Quarter ended 30th September, 2023	Half year ended 38th September, 2024		Year ended 31st Warch, 2024
1	Revenue from Operations	1,639.66	1,429.00	1,568.45	2,368.66	2,794.01	5,904.25	1,639.66	1,429.00	1,588.45	3,058.65	2,794.61	5,914.35
2	Net Profit/(Loss) for the period/year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	79.6E	(22.44)	91.99	57.21	19,41	107.50	79.65	(22.44)	91.99	57.21	19.41	113.58
3	Net Profit/(Loss) for the period/ year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	79.65	(22.44)	81.99	\$7.21	19,41	107.50	79.65	(22.44)	91.99	57.21	19.41	113.58
4	Net Profit/(Loss) for the period/year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	55.36	(16.13)	63.69	39.23	14.53	79.17	55.36	(16.13)	68.69	39:23	14.53	85.17
5	Total Comprehensive Income for the period/year [comprising Profit/(Loss) for the period/year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	55.86	(15.83)	69.93	40.23	17.02	B1.1B	51,55	(22.25)	65.23	29.31	13.40	74.28
6	Equity Share Capital	581.17	560.17	568,17	568.17	588.17	568.17	568.17	568,17	568.17	560.17	560.17	588.17
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	88	33	383	(4)	-	1,867.19			184	411	33	1,976.03
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing operations) Basic & Dilluted (Rs.)	1.99	(0.29)	1.23	m	9.26	1.41	0.91	(0.41)	1.11	0.51	8.19	1.29

Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarter / Half Year ended 30th September, 2024 Financial Results is available on the Company's Website at www.polymechplast.com and the Stock Exchange Website at www.bseindia.com. By Order of the Board For Polymechplast Machines Limited

The above is an extract of the detailed format of Quarter / Half Year ended 30th September, 2024 Financial Results filed with the

Mahendrabhai Bhuva Chairman & Managing Director DIN. 00054562"

Half Yearly ended Year ended

SHREE VIJAY INDUSTRIES LIMITED

CIN: L45202PB1984PLC018009 Registered Office Address: 57-58, Pushp Vihar, Agar Nagar Enclave, Ludhiana-141012.

Email ID: sviltd1984@gmail.com | Website: www.shreevijayg.co.in STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND

HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2024

Quarter ended

		30.09.2024 (Un-audited)	30.06.2024 (Un-audited)	30.09.2023 (Un-audited)	30.09.2024 (Un-audited)	30.09.2023 (Un-audited)	31.03.20 (Audite
1	INCOME					f T	
a)	Revenue from Operations	-					
b)	Other Income	*	94	- 2	1.2	-	
- 1	Total Income (a+b)				(*)	3.00	
2	EXPENSES		12	3			
a)	Cost of Materials Consumed		- E	2	1.0		
b)	Purchase of stock -in-trade		34		0.0		
c)	Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade.		*******	.,,			275112
d)	Employees benefits expenses	0.51	0.51	0.51	1.02	0.81	1.8
e)	Finance Costs						
n l	Depreciation and Amortization expenses						
g)	Other Expenses	0.74	0.54	0.03	1.28	0.06	2.4
	Total Expenditure (a+b+c+d+e+f+g)	1.25	1.05	0.54	2.30	0.87	4.3
3	Profit / (Loss) from Ordinary activities before exceptional items, extraordinary items & tax (1-2)	-1.25	-1.05	-0.54	-2.30	-0.87	-4.3
1	Exceptional items		000				-
5	Profit/(Loss) from ordinary activities before tax (3-4)	-1.25	-1.05	-0.54	-2.30	-0.87	-4.3
3	Tax expenses-Current tax	0	0	0	0	0	52.93
	Deferred tax	0	0	0	0	0	
Ш	Total Tax	0	. 0	0	0	0	
7	Net profit/ (Loss) for the period from continuing operations (5-6)	-1.25	-1.05	-0.54	-2.30	-0.87	-4.3
8	Profit/(Loss) from discontinued operations	0	0	0	0	0	
9	Tax expense of discontinued operations	0	0	0	0	0	
10	Profit/(Loss) from discontinued operations after tax (8-9)	0	0	0	0	0	
11	Profit/(Loss) for the period (7+10)	-1.25	-1.05	-0.54	-2.30	-0.87	-4.3
12	Other Comprehensive Income	0	0	0	0	0	
13	Total Comprehensive Income	0	0	0	0	0	
14	Face Value	10	10	10	10	10	- 1
15	Paid-up equity share capital (Rs. Lacs)	74.25	74.25	74.25	74.25	74.25	74.2
	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	0	0	0	0	0	ONNE
17	Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations)	*	8			•	
a)	Basic	-0.17	-0.14	-0.07	-0.31	-0.12	-0.5
b)	Diluted	-0.17	-0.14	-0.07	-0.31	-0.12	-0.5

Notes: These Standalone Financial Results for the quarter ended September 30, 2024 are in compliance with Indian Accounting Standards ("IND AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and in terms of Regualtion 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The above-mentioned results were reviewed by Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the meeting of Board of Directors of the Company held on November 12, 2024. These results have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Company. The Company operates in single segment. Hence no segment wise figures are published. Previous year figures have been regrouped/ rearranged whenever necessary to confirm to current year figures in order to comply with the requirements of the

amended Schedule III to the Companies Act, 2013 effective April 01, 2021. For Shree Vijay Industries Limited Sakshi

DATE: 12-11-2024 PLACE: LUDHIANA

Whole-Time Director (DIN: 03514700)

DALMIA BHARAT REFRACTORIES LIMITED CIN:-L26100TN2006PLC061254

Regd. Office: DALMIAPURAM, P.O.KALLAKUDI-621651, DIST. TIRUCHIRAPALLI, TAMIL NADU Phone:-911123457100, Website: www.dalmiaocl.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

(Rs. in crore except per share data)

5. 140.	TAKTICULARS		Quarter Ended		Hall Ital	Tear Ended	
		Sep 30, 2024	Jun 30, 2024	Sep 30, 2023	Sep 30, 2024	Sep 30, 2023	Mar 31, 2024
		Unaudited	Unaudited	Restated*	Unaudited	Restated*	Audited
Consolidat	ted Financial Results						
1	Income from operations	20.92	23.59	18.41	44.51	67.98	115.96
2	Profit/(Loss) before tax- Continued operations	0.05	(3.27)	0.27	(3.22)	2.35	(2.43)
3	Exceptional Items (Refer note 5)	- 9	- 7	0 .48	-	10.86	12.09
4	Net Profit/(Loss) after tax- Continued operations	(0.05)	(3.25)	40.01	(3.30)	51.75	0.80
5	Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income)-continuing and discontinued operations)	(42.32)	192.40	279.67	150.08	336.43	(189.98)
6	Paid-up equity share capital (Face Value Per Share Rs. 10/-)	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20	44.20
7	Other Equity excluding Revaluation Reserve	- 6	- 7	- 6	-	ë -	2 ,561.75
Discontinu	ned Operations (Refer Note No.3)						
8	Profit before tax from Discontinued Operation	(0.48)	0.08	0 .29	(0.40)	(0.20)	61.88
9	Net Profit / (Loss) for the period/ year from Discontinued Operation	(0.36)	0.06	0.25	(0.30)	(0.13)	46.29
10	Earning Per Share (of Rs. 10/- each)(not Annualised)						
	(a) Basic and Diluted- Continuing operations	0.00	(0.73)	9 .05	(0.73)	11.71	0.19
	(b) Basic and Diluted- Discontinued operations	(0.08)	0.01	0 .06	(0.07)	(0.03)	10.47
	(c) Basic and Diluted- Continuing and Discontinued operations	(0.08)	(0.71)	9 .11	(0.80)	11.68	10.66
tandalon	e Financial Results		- 22			25	//
1	Income from continued operations	9.90	10.61	7.17	20.51	27.35	40.80
2	Profit/(Loss) before tax - Continued and discontinued operations	(5.46)	(8.16)	0.11	(13.62)	2.99	47.44
3	Exceptional Items (Refer note 5)		- 1	- 1	-	29.24	29.24
4	Net Profit/(Loss) after tax- Continued and discontinued operations	(5.45)	(8.16)	39.40	-13.61	70.02	51.42

The above is an extract of the detailed format of unaudited quarterly & half year financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited quarterly & half year financial results are available on the stock exchange's

websites, www.msei.in and www.cse-india.com and on the Company's website www.dalmiaocl.com. The above financial results of Dalmia Bharat Refractories Limited ('the Company') were reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of

Directors on November 13, 2024. The statutory auditors of the Company have carried out limited review for the quarter and half year ended 30th September 2024.

In view of transfer of its Refractory Business in India to RHI Magnesita India Ltd ('RHI') which was concluded on January 04, 2023, the then Indian Refractory Business have

been considered as discontinued operations in accordance with Ind AS 105 (Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations). The Company has effective October 01, 2023 taken over Dalmia Magnesite Corporation ('DMC Unit') a Refractory unit of Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited under leave and license agreement. Continuing Operations in the Company includes the operations under this agreement and trading of magnesite carbon refractories ('Refractories').

The Company along with Himadri Speciality Chemical Limited ('HSCL') completed acquisition of Birla Tyre Limited ('BTL') under Corporate Insolvency Resolution Process pursuant to Order dated October 19, 2023 of Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata Bench ('NCLT'). The Approved Resolution Plan contained Financial Restructuring Scheme which provided for treatment of select assets and liabilities of BTL from the Restructuring Appointed Date (i.e. May 05, 2022), demerger of Tyre Undertaking of BTL to the Company under Scheme of Demerger from Demerger Appointed Date (i.e. May 06, 2022) and eventual capital reduction of the share capital of BTL. The above Schemes and related documents were filed with Registrar of Companies on November 04, 2023. The Company along with HSCL became the 100% shareholder of BTL. The Company has given effect to above restructuring and consolidated the financial statement of BTL as per 'Acquisition Method' in accordance with Ind AS 103 - Business Combinations read with other accounting standards prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013. The Company also transferred identified non-operational assets to Himadri Birla Tyre Manufacturer Private Limited with effect from appointed date May 6, 2022. All the accounting effects in the Financial Statements were given by the Company during the year ended March 31,2024. The financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2023 have been restated as per above approved resolution plan.

Exceptional items are as under: Pursuant to the Share Purchase Agreement with RHI Magnesita Deutschland AG and shareholders' approval, during the current quarter and half year ended September 30, 2023, the Company has disposed off wholly owned subsidiary company namely Dalmia GSB Refractories GmbH. Gain amounting to ₹ 29.24 Crore, arising out of this transaction has been considered as exceptional items and presented accordingly in the above said financial results for the period ended September 30, 2023 and for the year ended March 31, 2024.

The Board of Directors of the Company on February 02, 2024, have approved the Scheme of Amalgamation (the Scheme) between Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited (the Demerged Company) and the Company and their respective shareholders under Sections 230 to 232 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 for transfer and vesting of Demerged Undertaking 1 or "DMC Unit" i.e. the refractory business of Demerged Company which is engaged in the business of manufacturing of refractories and Demerged Undertaking 2 or "GT Unit" i.e. the tours and travel service business of Demerged Company into the Company on a going concern basis. In consideration of it, the Company shall issue and allot New Equity Shares of face value of ₹ 10/- each, to the equity shareholders holding fully paid up equity shares of the Demerged Company in the proportion defined in the scheme. The appointed date of the said Scheme is July 01, 2023. Pending approval of the scheme from shareholders and National Company Law Tribunal and regulatory authorities and other compliances, no accounting effects are considered in the above financial results. As of Septmber 30, 2024, the Company has received a "no objection" letter from the Metropolitan Stock Exchange under Regulation 37 of SEBI LODR, and the application has

been filed with NCLT. However, pending the necessary approvals, no accounting effects have been included in the financial results.

The Previous period/year figures have been restated/regrouped wherever considered necessary.

On behalf of the Board For Dalmia Bharat Refractories Limited Chandra Narain Maheshwari

Place: New Delhi

Dated: November 13, 2024

Whole Time Director & CEO DIN: 00125680

New Delhi

financialexp.epapr.in

THOFC BANK

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

शाखा का पता: प्रथम तल, पदम, टावर-2, 14/113, सिविल लाइन्स, कानपुर-208001, फोन : 0512-6680634 CIN: L65920MH1994PLC080618 वेबसाइट: www.hdfcbank.com

कब्जे का नोटिस

जैसा कि **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकत अधिकारी के रूप में (माननीय एनसीएलटी—मुम्बई द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आदेश द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के आधार पर पूर्ववर्ती एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) (एचडीएफसी) वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदश्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कथित अधिनियम की घारा 13(2) के अधीन एक मांग सुचना जारी की जिसमें निम्नलिखित कानुनी उत्तराधिकारी (थाँ) और कानुनी-प्रतिनिधि (याँ) को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई राशि के साथ कथित सूचना में दर्शाए गए अनुसार लागू दरों पर उसमें लगने वाले ब्याज को कथित सूचना (ऑ) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भूगतान और / या वसूली की तिथि तक प्रासंगिक ब्यय, लागत, प्रभार आदि का भगतान करने के लिए कहा गया।

1000	उद्यारकर्ताओं / कानूनी वारिसों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम		मांग सूचना की तिथि	10000000000	अचल सम्पत्ति / प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण
1	श्री अमित चटर्जी (ऋणी) श्रीमती देवांगिनी चटर्जी (सह—ऋणी)	A STATE OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF	23.07.2024		समस्त शेष एवं सम्पूर्ण प्लाट पर मकान, खसरा नं0 364 मि का भाग, मीजा लहरगिर्व, झांसी, चौहद्दी: पू -7.62 मीटर सड़क, प-श्रीमती हेमलता का मकान, ख-आकांक्षा नामदेव का मकान, द-राजेश यादव का मकान, क्षेत्रफल: 92.94 वर्ग मी0

"मृगतान और / या वसूली की तिथि तक उचित लागू अनुसार आगे लगने वाले ब्याज, प्रांसगिक व्यय,लागत, प्रमार आदि के साथ, जैसा लागू हो। हालांकि, उपरोक्त दशाए गए कानुनी उत्तराधिकारी (याँ) और कानुनी-प्रतिनिधि (याँ) बकाया राशि का भूगतान करने में असफल रहें इसलिए एतदद्वारा विशेषतः काननी उत्तराधिकारी (यों) और काननी–प्रतिनिधि (यों) और आम जनता को स्वित किया जाता है कि **एवडीएफसी** के प्राधिकत अधिकारी ने कथिल अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित कथिल अधिनियम की घारा 13(4) के अन्तर्गत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दर्शाई गई तिथियों को अचल सम्पत्ति / प्रतिमृत परिसम्पत्ति पर **सांकेतिक कब्जा** कर लिया है।

विशेषतः उपरोक्त दशाए गए कानुनी उत्तराधिकारी (याँ) और कानुनी-प्रतिनिधि (याँ) और आम जनता को सुचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाई गई अधन सम्पत्ति / प्रतिभूत परिसम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और कथित अधन सम्पत्ति / प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर कोई भी लेनदेन एवडीएफसी के बन्धक के अधीन होगा।

कानुनी उत्तराधिकारी (यों) और कानुनी-प्रतिनिधि (यों) को अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समय के

भीतर प्रतिभूत परिसम्पत्ति / याँ को मुक्त कराने की ओर से ध्यान आकृष्ट किया जाता है। दिनांकः 15.11.2024

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(सीआईएन एल15130एचआर1994पीएलसीओ32362)

पंजीकृत कार्यालय-136 केएम, आठवीं और पीओ -शामगढ़, जिला-करनाल, ए.41टी लिमिटेड हरियाणा-132116

वेबसाइटः www.ansfoods.com, ईमेल आईडी- ansagro. limited@gmail.com

30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही—1ध्2 छमाही के लिए

असंपरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का उद्धरण

स्थान : कानपर पंजीकृत कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बपत मार्ग, लोकर पर्ल (पश्चिम) मुम्बई-400 020 LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

Registered Office: 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001. www.aubank.in

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on 21 Nov 2024 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time) at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)

FARIDABAD - 23660001863137 24660000178782 24660000255537 24660000694160 | GURUGRAM - SECTOR 10 - 24660000303828 24660001403703 24660001466963 24660001725156 24660001725306 GURUGRAM - SECTOR 15 - 24660000860048 24660001221294

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form. which is made available before the commencement of auction.

> Sd/-Manager AU Small Finance Bank Limited

DEEPAK SPINNERS LIMITED

Regd. Office: 121, Indl.Area, Baddi, Distt. Solan, H.P.-173205

er.	Quarter ended Half Year ended								
SI. No.	Particulars		30.06.2024 Unaudited	30.09.2023	2.1921 1.42	30.09.2023	entrecholis externe, l'inserienza in constitue de		
1	Total Income from Operations	13,165	13,981	13,419	27,146	24,789	47,378		
2	Net Profit' (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	(314)	(559)	347	(873)	649	205		
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(314)	(559)	347	(873)	649	206		
4	Net Profit (Loss) for the period after tax (after Exceptional and) or Extraordinary items)	(347)	(562)	254	(909)	474	130		
5	Total comprehensive income for the period (comprising profit or (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	(347)	(562)	264	(909)	474	169		
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Equity Share -Rs 10 per share)	719	719	719	719	719	719		
7	Other Equity	3.3		111111111111111111111111111111111111111	(34)	- 1	22,826		
80	Basic and Diluted Earning Per Share not annualised except for the year ended March 31,2024	(4,83)	(7.82)	3.53	(12.64)	6.59	1.81		

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half Yearly Financial Results are available on the website of the BSE Limited (www.bseindia.com) and on the website of the Company at the URL www.dsf-

For and behalf of Board of Directors Yashwant Kumar Daga Place: Kolkata Date: 14.11.2024 Chairman and Managing Director

एएनएस इंडस्ट्रीज

(रुपये लाख में)

30.09.2023

0.60

-21.96

-21.96

-21.96

925.56

-0.24

एएनएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए

वर्ष समाप्त होने

30.09.2024

अलेखापरीक्षित

75.43

-197.49

-194.15

-194.15

925.56

-2.10

30.09.2024

अलेखापरीक्षित

74.68

-168.68

-165.34

-165.34

925.56

-1.79

वर्ष समाप्त हो

की तिथि तक

31.03.2024

लेखापरीक्षित

65.63

-31.59

-31.59

-37.47

925.56

-404.96

-0.40

(मेहिंदर शर्मा)

(प्रबंध निदेशक)

(डीन: 00036252)

CIN. L17111HP1982PLC016465

Phone No. 0172-2650973, 2650974; Email: usha@idsl-India.com; Website: www.dsl-India.com EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEP, 2024

SI.	1 E85 W	0	Quarter ende	d	Half Yea	ar ended	Year ended
No.	Particulars	30.09.2024 Unaudited	30.06.2024 Unaudited	Billian from the Art of the Art of September 1 is described.	30.09.2024 Unaudited	the product of the company of the company	31.03.2024 Audited
1	Total Income from Operations	13,165	13,981	13,419	27,146	24,769	47,378
2	Net Profit' (Loss) for the period (before Tax. Exceptional and/ or Extraordinary items)	(314)	(559)	347	(873)	649	205
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(314)	(559)	347	(873)	649	206
4	Net Profit (Loss) for the period after tax (after Exceptional and) or Extraordinary items)	(347)	(562)	254	(909)	474	130
5	Total comprehensive income for the period (comprising profit or (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	(347)	(562)	264	(909)	474	169
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Equity Share -Rs 10 per share)	719	719	719	719	719	719
7	Other Equity	34	- 1		9.23	- 10	22,826
8	Basic and Diluted Earning Per Share/not annualised except for the year ended March 31,2024	(4.83)	(7.82)	3.53	(12.64)	6.59	1.81

दिनांक : 14 / 11 / 2024

स्थान : नई दिल्ली

परिचालन से कुल आय

(बी) पतला

विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड

3 पिछले वर्ष/अवधि के आंकड़े जहां भी आवश्यक हो, पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।

अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर और अपवाद मदों से पहले)

अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर और अपवाद मदों के बाद)

अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर और अपवाद मदों के बाद)

चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु.10 प्रति शेयर)

प्रति इक्विटी शेयर आय 10 रुपये प्रति शेयर (वार्षिक नहीं)

अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर और अन्य व्यापक आय के बाद अवधि के लिए

अन्य इक्विटी (पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में दिखाए गए अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व

तिमाही और छमाही के विस्तृत प्रारूप का एक अर्क है और पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट

www.ansfoods.com और बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

(पूर्व में विभोर स्टील ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से विदित)

सीआईएनः U27109HR2003PLC035091 पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नंबर २, औद्योगिक विकास कॉलोनी, दिल्ली रोड, हिसार, हरियाणा - 125005 भारत, दूरभाष सं. : 01662-237359, 222710; ईमेल आईडी : contact@vstlindia.com; वेबसाइट : www.vstlindia.com 30.09.2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए गैर-लेखापरीक्षित स्टेंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार

उपरोक्त परिणाम सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के रेग 33 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ दायर 30 सितंबर, 2024 को समाप्त

! उपरोक्त परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और 14.11.2024 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया

(ईपीएस को छोड़कर लाख रूप										
क्र. सं.	विवरण	समा	प्त तिमाही के	लिए	समाप्त छा	समाप्त वर्ष के लिए				
•		30 सितंबर, 2024 अन-ऑडिटेड	30 जून, 2024 अन-ऑडिटेड	30 सितंबर, 2023 ऑडिटेड	30 सितंबर, 2024 अन-ऑडिटेड	30 सितंबर, 2023 ऑडिटेड	31 ਸਾਰੀ, 2024 ऑडिटेड			
1	परिचालनों से कुल आय (निवल)	23,630.80	22,517.10	28,038.31	46,147.90	53,124.24	107,437.81			
2	अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	161.46	410.69	685:21	572.16	1,135.19	2409.52			
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	161.46	410.69	685:21	572.16	1,135.19	2409.52			
4	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	88.50	302.02	517.72	390.52	852.13	1771.94			
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]	84.25	302.02	521.34	386.27	855.75	1779.55			
6	समता अंश पूंजी	1,896.24	1,896.24	1,896.24	1,896.24	1,418.30	1,896.24			
7	अन्य समतायें									
8	आय प्रति अंश (असाधारण मदों से पूर्व) (रु. 10/– प्रत्येक का)									
	(1) मूलभूत	0.47	1,59	2.73	2.06	6.01	9.34			
	(2) तरलीकृत	0.47	1,59	2.73	2.06	6.01	9.34			
	आय प्रति अंश (असाधारण मदों के उपरांत) (रु. 10/— प्रत्येक का)									
	(1) मूलभूत	0.47	1.59	2.73	2.06	6.01	9.34			
	(2) तरलीकृत	0.47	1.59	2.73	2.06	6.01	9.34			

1. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा एवं संस्तृति, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई है तथा तदुपरांत निदेशक मंडल द्वारा 13.11.2024 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया गया।

2. उपरोक्त साराँश, सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्र त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक साराश हैं। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात्

(www.bseindia.com, www.nseindia.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट (www.vstlindia.com) पर उपलब्ध है। कृते विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड

स्थान : हिसार दिनाँक: 13/11/2024

विजय कौशिक डीआईएन : 02249672

DR. M. INDUSCORP LIMITED Regd. Office: 188/1, Ground Floor, Dev Nagar, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, Tel.: +91-11-28716806 CIN: L011190L1986PLC023698 Website: www.dminduscorp.com, Email: drmsoy@gmail.com Extract of the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September 2024 (Rs. in Lakhs)

S.		For Quarter Ended			For Half Year Ended		For Year Ended	
No.		30.09.2024 Unaudited	30.06,2024 Unaudited	30.09,2023 Unaudited	30.09.2024 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	31.03.2024 Audited	
1	Total income from operations (Net)	2011.44	20,30	14.45	2031.74	24.53	59.36	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax; Exceptional and/or Extraordinary items)	-7.26	4.35	1:14	-2.91	-0.97	8.05	
3	Net Profiti(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-7.26	4.35	1.14	-2.91	-0.97	8.05	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-3.10	4.35	1.14	1.25	-0.97	8.05	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit)(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-3.10	4,35	1.14	1.25	-D.97	8.05	
6	Equity Share Capital	*763.02	*763.02	*763.02	*763.02	*763.02	*783.02	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0.00	0.00	0.00	(526.61)	0.00	(527.85)	
8	Earnings per share: a) Basic b) Driuted	-0.04 -0.04	0,05 0,06	0.02 0.02	0.02 0.02	-0.01 -0.01	0.11 0.11	

The Share Capital includes amount of Rs. 7 Lacs against shares forfeited.

The above is an extract of the detailed format of the Statement of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The detailed Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 14/11/2024. The full format of the Statement of Unaudited Financial Results are available on the Company's website (www.drminduscorp.com) and on the website of Stock Exchange i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited.(www.msei.in).

Regulations, 2015 has been completed and the related Report does not have any impact on the above 'Results' and Notes' for the Quarter and Half year ended which needs to be explained. The figures of the previous period/year has been regrouped/recast wherever considered necessary, to conform

The Limited Review, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

By the Order of the Board

Place: New Delhi

to the current year classifications.

[PREM PRAKASH] Managing Director DIN: 00289179

डॉ. फ्रेश एसेट्स लिमिटेड

सीआईएनस L74899DL1990PLC042302 पंजीकृत कार्यालयः बी-1/ई-24. मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110044 वेबसाइट: www.drfreshassets.com, मेल आईबी: drfresh@drfreshassets.com क निर्णादर २०२४ को समाप्त निरामी और अर्थ वर्ष के लिए स्टैंडयलोन अलेन्सपरीक्षित मिलीस परिपामों (धर्नानिम) का सार्गात

रणों	समान्त विमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त छमाडी	समाप्त छगाडी	समान्त वर्ष
परिवालनों से कुल आय	30 09 2024 (समीवित)	30 06 2024 (समीवित)	30:09:2023 (समीक्तित)	30 09 2024 (सनीवित)	30 09 2023 (समीजित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित
	133.51	14.90	72.97	148.42	51.05	97.45
(कर से पहले ,विशेष और	701 112.39	80.96	27.56	182.37	103.53	215.83
शुद्ध लाम/(हानि) (विशेष औ	112.59	60.06	27.56	182.37	108.53	215.83
गुद्ध लान्द(हानि) (विशेष ओ	t/m 61.17	54.01	20.08	175.21	61.75	169.0
भवधि (कर के बाद) के लिए ((जोसीआई) (कर के बाद),	1169.401	361.12	247.00	191.72	430,67	731.51
	1077.91	1.077.91	1077.91	1977.91	1077.91	1827.9
					177	4207.8
PR 10/- HUI)	0.75	9.47	0,19	1.61	0.75	1.5

999		আঁকট্ট নাআঁ	रुपय न ह/				
亷.		समान्त तिमाही	सम्बन्त तिमाही	समान्त तिमाही	समान्त छमाही	समाप्त छमाही	समाप्त वर्ष
सं	विवरणॉ	30 09 2024 (समीकित)	30 06 2024 (ਦਾਸ਼ੀਵਿਦ)	30 09 2023 (सनीकित)	30.09.2024 (समीक्रित)	30.09.2023 (समीक्षित)	31 03 2024 (लेखापरीबित
1.	परिचालनों से कुल आय	192.51	112,18	151.89	334.69	702,43	426.74
-	अवधि के लिए हुद्ध लाम/(शांगि) (कर से पहले विशेष और ध्या असाधारण मर्दे)	91.67	12.22	57.76	147.00	75.14	204.72
3	कर से पहले की अवधि के लिए कुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष और ध्या अशाधारण भर्वे के बाद)	95.67	50.23	57.26	147.90	79.94	204.72
*	कर के बाद की अवधि के लिए मुद्ध लाम/(शारी) (विशेष और ध्या असामारण मर्गे के बाद)	66.14	75.59	50.44	142.73	56.92	156.45
	अवधि के लिए कुल व्यापक आय रू अवधि (कर के बाद) के लिए संयुक्त लाम/(हानि) और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) (कर के बाद).	(104.55)	331.96	250.80	147.41	415.39	759.71
ķ	इकिस्टी शेवर यूजी अन्य इक्सिटी	1077.91	1977.91		1027.91	1077.91	
E.	प्रति शेवर आय (प्रत्येक का अकित मूल्य 10/- संपर्ध) वेतिक और प्रिजटिक (क)	0.65	2.70	0.50	1.32	0.52	1.44

1.जपरोक्त विस्तृत तिमाडी और अर्धवार्षिक समाप्त वित्तीय परिणामों का एक अंश है जिसे लेखा परीक्षा समिति ने 14.11.2024 को आयोजित अपनी बैठक में अपनाया है, और निवेशक महल ने 14.11.2024 को अपनी बैठक में अनुमोदित किया है और कैशनिक लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षा की गई है और सेवी (सुकीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विभिन्नम् 2015 के विभिन्नम् 33 के अतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल किया गया है। इन विलीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.mcx-sx-com और कंपनी की वेबसाइट यानी www.drfreshassets.com पर उपलब्ध है।

नियम, 2015 के नियम 3 और उसके बाद प्रासंगिक संशोधन नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं। 3. 2 सहायक कंपनियां के मामले में लगातार घाटे के कारण इन कंपनियां की नेटवर्थ कम हो गई है। डालांकि, पिछले वर्षों में इन कंपनियों ने ऋण के रूपातरण

2. ये वितीय परिनाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के आंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (इंडिया एएस) के अनुसार कंपनी (भारतीय लेखा मानक)

के खिलाफ अनिवार्य परिवर्तनीय डिवेंचर जारी किए थे। इन्हें इविवटी में बदलने पर नेटवर्ष सकारात्मक होगी, तदनुसार वे खाते वाल व्यवसाय के अकार पर तैयार

4. वित्त विधेयक 2024 में प्रस्तावित नए कर ढांचे के अनुसार आरधमित कर की गणना की गई हैं, तदनुसार इस अवधि के लिए आरधमित कर शुल्क पहले की अविक की दुलना में अधिक है।

 अल्पसंख्यक हित एक सहायक कंपनी में अल्पसंख्यक शंयरधारकों के लिए जिम्मेदार राशि का प्रतिनिधित्व करता है। पिछली अवधि और/या वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया है,फिर से समूहीकृत या पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

निवेशकों की संख्या प्राप्त शिकायतरू शून्य, निपटारा: शून्य,लंबित: शून्य

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 14.11.2024

बोर्ड के आदेशानुसार डॉ फ्रेश एसेटस लिमिटेड के लिए हस्ता /- विजय प्रकाश पाठक पूर्णकालिक निवेशक, डीआईएन-07081958

केनरा बैंक Canara Bank 🗫 fiffike Syndleste

चन्नी हिम्मत शाखा:- सेक्टर 3, रेलवे ट्रैक के पास, जम्मू, जम्मु और कश्मीर

संदर्भ संख्याः सीबी/7988/2975/24-25/के एंड के दिनांक: 24.10.2024 उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता कोः- उधारकर्ता(ओं):-(1) के एंड के इंटरप्राइजेज, प्रो.-श्रीमती श्रृंगार सिन्हा, व्यावसायिक पता:-मकान नंबर 146, सेक्टर-5, चन्नी हिम्मत, जम्मृ, जम्मृ-कश्मीर-180015।

(2) श्रीमती श्रृंगार सिन्हा पुत्री तरूण कुमार श्रीवास्तव, निवासी फ्लैट नंबर 47, डीडीए-एसएफएस, पॉकेट 1,

सेक्टर 4, हार्मनी अपार्टमेंट, द्वारका, नई दिल्ली - 110075। गारंटर और बंधककर्ताः- श्रीमती कीर्ति गंडोत्रा पत्नी स्वर्गीय सतीश गंडोत्रा, निवासी फ्लैट नंबर 47, डीडीए-एसएफएस, पॉकेट 1, सेक्टर 4, हार्मनीअपार्टमेंट्स, द्वारका, नई दिल्ली- 110075

विषय: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 13 (8) के अंतर्गत मोचन के अधिकार का

प्रयोग करने के लिए सूचना नीचे हस्ताक्षरकर्ता, केनरा बैंक, चन्नी हिम्मत शाखा, जम्मू (जिसे आगे "सुरक्षित ऋणदाता" कहा जाएगा) के अधिनियम के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, अधिनियम की धारा 13(8) के साथ सरफेसी

नियमों के नियम 8(6) के तहत आप सभी को निम्नानुसार यह नोटिस जारी करते हैं:-जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुरक्षित लेनदार ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत 05.08.2022 को उधारकर्ताओं - के एंड के एंटरप्राइजेज (प्रोप. श्रीमती श्रृंगार सिन्हा) (उधारकर्ता), श्रीमती श्रृंगार सिन्हा पुत्री तरुण कुमार श्रीवास्तव (उधारकर्ता) और श्रीमती कीर्ति गंडोत्रा पत्नी स्वर्गीय सतीश गंडोत्रा (गारंटर और बंधककर्ता) को डिमांड नोटिस जारी कर उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर 53,14,341.66 रुपये (तिरेपन लाख चौदह हजार तीन सौ इकतालीस रुपये और छियासठ पैसे मात्र) की राशि और

उस पर उल्लिखित ब्याज का भुगतान करने की मांग की थी। चुंकि, आप ऋणी और बंधककर्ता होने के नाते उपरोक्त मांग नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 17.08.2024 को कब्जे के नोटिस में वर्णित सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया था। इसके अलावा, उक्त प्रतीकात्मक कब्जे का नोटिस 18.08.2024 को जनसत्ता और फाइनेंशियल एक्सप्रेस अखबारों में विधिवत

सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधान को सरफेसी नियमों के नियम 8(6) के साथ पालन करने के लिए, आप सभी को इस नोटिस की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर सुरक्षित लेनदार के कब्जे में सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने और पुनः प्राप्त करने का अंतिम और अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें 01.08.2022 तक 53,14,341.66 रुपये (तिरेपन लाख चौदह हजार तीन सौ इकतालीस रुपये और छियासठ पैसे मात्र) के दायित्व का निर्वहन करना होगा, साथ ही बाद में ब्याज, लागत और व्यय का पूरा भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर अधिनियम के तहत बिक्री नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने के लिए नीचे उल्लिखित निम्नलिखित तरीकों में से एक को निर्दिष्ट किया जाएगा:-क समान सरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित या अन्यथा परिसंपत्तियों को खरीदने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों से

कोटेशन प्राप्त करके; या i. जनता से निविदाएं आमंत्रित करके; या

ii. ई-नीलामी मोड के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी आयोजित करके: या

iv. अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार, आप समाचार पत्रों में बिक्री नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के हकदार हैं, ऐसा न करने पर अधिनियम की धारा 13(8) के अनुसार बंधक संपत्ति को भुनाने का आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा।

यह विषय अधिनियम/ या लागू किसी अन्य कानून के तहत सुरक्षित ऋगदाता को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना है।

muthoot HOUSING FINANCE

क. बकायेदार/जमानतदार का नाम व पता

3. श्री प्रमोद चन्द्र जोशी पुत्र बाल

दलीप सिंह मल्ला ब्यूरा, काठगोदाम, नैनीताल, उत्तराखण्ड-263139

मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः टीसी नंबर 14/2074-7, मुधूट सेंटर, पुल्नेन रोड, तिकवनंतपुरन - 886 034,

सीआईएन जंबर - U65922KL2010PLC025624 कॉर्पोरेट कार्यालय 12/ए 01, 13वीं मंजिल, परिणी क्रेस्केंबो, प्लॉट नंबर सी38 और सी39, बांडा कुर्ली कॉम्प्लेक्स–जी ब्लॉक (पूर्व),

मुंबई-400061, दुरमाण नंबर: 022-62728617, ईमेल आईडी: authorized.officer@muthoot.com

परिशिष्ट-1V1नियम 8(1)। कब्जा सचना (अचल संपत्ति के लिए)

वबकि अध्येदस्ताहारी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्तिभाँण और सुरक्षा डित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्या 54) के तहत और सुरक्षा डित प्रवर्तन) नियम, 2002 के निवम 3 के धारा 13 (12) के तहत प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्ट हात्तरिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी के रूप में नीयें उस्लिखित उधारकर्ता/ गारंटरों को एक मांग नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 🕫 दिन पूरे होने के बाद उधारकर्ता/नारंटर/नारंटर सक्ति धुकाने में विफल रहे हैं, इसके द्वारा उच्चरकर्ता/गारंटर/ओं और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अवोहस्ताक्षरी इस पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 19(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कथ्वा ले लिया है।

	नंबर 15100084883 शालिनी पाठक, 2. संजय जुमार पाठक	17—'जुलाई-2024	रू.14,73,816/- 08-जुलाई -2024 तक	13-नवस्बर -2024
-		तारीख	भविष्य में लागू ब्याज	
	लन/जवारकता/सह-जवारकता/गारटर का नाम	ाडमाड माटस का	केंब आ\ ५४ साझ (०)	कब्जा का तिथ

सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति का विवरण: खसरा संख्या 433/1 (यूनिट कोड संख्या 216981—0433—1—1001—12) पर स्थित प्लॉट पर निर्मित एक फ्रीहोल्ड आवासीय घर का पूरा टुकडा, गांव छोटपुर, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201307 में स्थित क्षेत्रफल 250 वर्ग गज यानी 209,025 वर्ग मीटर पूर्व: 20 फीट चौड़ी सड़क पश्चिम: 12 फीट चौड़ी सडक उत्तर: दसरे का प्लॉट दक्षिण: दसरे का प्लॉट

विशेष क्या से उपारकर्ता / गारंटर / गारंटरों और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन मुपुर हाउसिंग काइनेंस क्षंपनी लिमिटेंड के ऊपर उल्लिखित मांन की गई शक्ति के चुल्का और उस आगे ब्याज के ज्योंन होगा। स्थानः उत्तर प्रदेश , दिनांकः 15 नवम्बर 2024 हश्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, मुखूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए

कुसुमलेहा, बालाजी बैकेट ई नीलामी / विक्रय सुचना केनरा बैंक Canara Bank 🖈 क्षेत्रीय कार्यालय, हल्हानी A Government of India Undertaking हॉल के पास, चीनपुर, हल्ह्यानी, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड archid@conordonk.c

डिमांड नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पूर्नगठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act) 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी नोटिस के सम्बन्ध में निम्नलिखित ऋणियों एवं जमानतियों द्वारा केनरा बैंक की निम्नलिखित शाखाओं से लिया गया ऋण अनर्जक आस्ति हैं। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पूर्नगठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम (SARFAESI Act) 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत बैंक द्वारा पंजीकृत/कोरियर डाक द्वारा प्रेषित डिमाण्ड नोटिस बैंक शाखा में वापस आ गए हैं। यदि ऋणी/जमानतियों द्वारा बैंक की उपरोक्त अवशेष राशि का भूगतान 60 दिन के अन्दर बैंक को नहीं किया जाता है तो बैंक उक्त में उल्लिखित भूमि-भवन का कब्जा सेक्शन 13(4) के अन्तर्गत लेने के लिए बाध्य होगा। बकाएदार/जमानतकर्ता (ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों के मोचन के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा—13 की उप—धारा (8) के प्रावधान में दिये गये समय के सम्बन्ध में आमंत्रित किया जाता है।

अचल परिसम्पत्तियों का विवरण

बकाया धनराशि

н.	वकावदार/जागाजरादार का नाम व परा।	अवल पारसन्पाताचा का विवरण	વવાવા વળસારા
एसएमई काशीपुर शाखा ౼	1. श्रीमती जयप्रिया पत्नी श्री प्रणव मेहरोत्रा, वार्ड नं. 11, मोहल्ला ओझां, काशीपुर उत्तराखण्ड—244713	बंधक अचल सम्पत्ति (आवासीय संपत्ति) के सभी भाग व हिस्से जो कि खसरा नं. 212 मिन, मौजा नीझरा, तहसील काशीपुर, जिला उधमसिंह नगर में स्थित है। क्षेत्रफल 51.58 वर्ग मीटर। सीमाएं – उत्तर में सरनजीत कौर की सम्पत्ति, दक्षिण में सुनील रावत का घर, पूरब में 20 फीट बाँड़ी रोड, पश्चिम में शिव कुमार की सम्पत्ति। सम्पत्ति स्वामी– श्रीमती जयप्रिया पत्नी श्री प्रणव मेहरोत्रा।	₹ 7,60,084.00 (रूपये सात लाख साठ हजार घीरासी मात्र) दिनांक 19.10.2024 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे एनपीए की तिथि 13.10.2024 डिमांड नोटिस की तिथि 19.10.2024
पीरूमदारा शाखा ∾		वंधक अचल सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि खाता नं. 117 मिन, ग्राम आमपोखरा,परगना भावर चिल्किया, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड में स्थित है। क्षेत्रफल 119.88 वर्ग मीटर। सीमाएँ – उत्तर में 20 फीट रोड, दक्षिण में अन्य की भूमि, पूरव में भगवती देवी की भूमि, पश्चिम में विक्रेता की भूमि। सम्पत्ति स्वामी – श्रीमती शोभा पत्नी श्री जगदीश सिंह।	₹ 4,99,117.06 (रुपये चार लाख निन्यानये हजार एक सी सतरह एवं पैसे छह मात्र) दिनांक 28.10.2024 तक + व्याज एवं अन्य खर्चे एकपीए की तिथि 24.10.2024 डिमांड गोटिस की तिथि 28.10.2024
अ. डाल्डानी शास्त्रा	1. मैसर्स इको विलेज रिट्रीट रामगढ़, 2मल्ला रामगढ़, ग्राम खोपा, भोराकोट,रामगढ़, नैनीताल उत्तराखण्ड–263137 2. श्रीमती प्रियांक फुलेरा पुत्री चन्द्र शेखर फुलेरा (प्रोपराईटर/ बंधककर्ता), 172, हिल्स व्यू एन्वलेब, ब्लॉक आफिस के सामने, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड–263139	1. बंधक अचल सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि खाता नं. 15, खसरा नं. 5514 मिन, ग्राम बोहराकोट, परगना रामगढ़, तहसील नैनीताल में स्थित है। क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर। सम्पत्ति श्रीमती प्रियांक फुलेरा के नाम पर दर्ज हैं। सम्पत्ति का मूल्यांकन रू. 95.93 लाख है जो कि मैसर्स एम एस नेगी एवं एसोसिएट्स के द्वारा दिनांक 13.01.2022 को किया गया था। सीमाएँ – उत्तर में दानदाता की शेष सम्पत्ति, दक्षिण में दानदाता की शेष भूमि, पूरब में 60 मीटर के बाद ट्यूनारा मोटर मार्ग, पश्चिम में दानदाता की शेष भूमि। सम्पत्ति स्वामी – श्रीमती प्रियांक फुलेरा पत्नी श्री संतोष सिंह हरनवाल।	₹ 38,13,945.68 (रुपये अड़तीस लाख तेरह हजार नी सी पैतालिस एवं येसे अड़सठ मात्र) दिनांक 05.11.2024 तक + व्याज एवं अन्य खर्चे प्रदूषीए की तिथि 31.10.2024

कृपया ध्यान दें कि उक्त एक्ट की धारा 13(13) के अनुसार इस नोटिस के प्राप्ति के उपरांत उपरोक्त सम्पत्ति को बैंक की पूर्व लिखित सहमती के बिना किसी व्यक्ति या संस्था को आप विक्रय, लीज या अन्यथा (सामान्य प्रक्रिया के अलावा) हस्तांतरित नहीं करेंगे। आपको यह भी नोटिस दिया जाता है कि इस वैधानिक निषेधाज्ञा/प्रतिबन्ध का कोई भी उल्लंघन, उपरोक्त अधिनियम के अनुसार एक अपराध है। यदि किसी कारण से सामान्य प्रक्रिया में बंधक सम्पत्ति विक्रय की जाती है या लीज पर दी जाती है तो बिक्री/लीज के द्वारा प्राप्त की गयी आय बैंक के पास जमा/प्रेषित की जायेगी। ऋणी एवं जमानतियों को सूचित किया जाता है कि बैंक की सम्बन्धित शाखा में स्वयं उपस्थित हो 13(2) के अन्तर्गत प्रेषित डिमाण्ड नोटिस प्राप्त कर इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि के 60 दिन के भीतर अवशेष राशि का भुगतान सुनिश्चित करें ताकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।

किशन जोशी (जमानती), हीरागढ़ विलेज रिट्रीट रामगढ़— प्रोपराईटर श्रीमती प्रियांक फुलेरा पत्नी श्री संतोष सिंह हरनवाल

2. चल सम्पत्तियों का दृष्टिबंधक (फर्नीचर एवं फिक्सचर)। सम्पत्ति स्वामी-मैसर्स इको

प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 15.11.2024 स्थान : हल्द्वानी, जिला नैनीताल



ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड (पूर्व में ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से विदित) CIN: L85110DL2004PLC128319

पंजीकृत कार्यालय: मेदांता मेडिक्लिनिक, ई-18, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली 110024, भारत निगमित कार्यालय: मेदांता - दि मेडिसिटी, सेक्टर - 38, गुरूग्राम, हरियाणा 122001, भारत दूरभाष : +91 124 483 4060, ई-मेल : compliance@medanta.org, वेबसाइट : https://www.medanta.org

30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही तथा समाप्त छमाही के समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का साराँश

(रू. मिलियन में, ईपीएस छोडकरं)

समाप्त समाप्त समाप्त सं. तिमाही छमाही तिमाही 30.09.2024 30.09.2024 30.09.2023 (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) 9,565.55 18,176.32 8,504.46 1 परिचालनों से राजस्व 🙎 अवधि हेत् निवल लाभ (कर एवं आपवादिक मदों से पूर्व) 1,810.99 3,247,51 1,706.04 कर पूर्व अविध हेतु निवल लाभ (आपवादिक मदों के उपराँत) 1,810.99 3,247.51 1,706.04 ય 🛮 कर उपराँत अवधि हेतु निवल लाभ (आपवादिक मदों के उपराँत) 1,308.18 2,370.82 1,251.61 5 अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात्) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से समाविष्ट। 2,358.03 1,315.66 1,261,20 6 प्रदत्त समता अंश पूंजी 537.09 537.09 536.81 🚺 आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्याँकन आरक्षित छोड़कर)* 8 आय प्रति अंश (रु. 2/- प्रत्येक का) 4.87 8.83 4.66 तरलीकृत : 4.87 8.83 4.66

*दिनाँक 31 मार्च 2024 के अनुसार आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्याँकन आरक्षित छोड़कर) रू. 28,519.26 मिलियन की थीं। 30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही तथा समाप्त छमाही के एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का साराँश

(रू. मिलियन में) समाप्त तिमाही छमाही तिमाही 30.09.2024 30.09.2024 30.09.2023 (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) 1 परिचालनों से राजस्व 5,860.16 6,646.06 12,760,55 अविध हेतु निवल लाभ (कर एवं आपवादिक मदों से पूर्व) 1,436.09 2,733.52 1,268.92 कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (आपवादिक मदों के उपराँत) 1,436.09 2,733.52 1,268.92 🔼 कर उपराँत अवधि हेतु निवल लाभ (आपवादिक मदों के उपराँत) 1,044.66 2,007.50 950.95 5 अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात्) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) से समाविष्ट] 957.56 1,051.77 1,995.62

टिप्पणियाँ :

स्थान : गुरूग्राम

प्राधिकृत अधिकारी

दिनॉक : 14 नवंबर 2024

1) इन परिणामों की समीक्षा एवं संस्तुति, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई है तथा तद्नुसार कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 14 नवंबर 2024 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में इनका अनुमोदन किया गया। परिणाम, कंपनी के साँविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन किये गये हैं।

2) उपरोक्त साराँश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक साराँश है। समेकित एवं एकल त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com एवं www.nseindia.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट https://www.medanta.org पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार

कृते ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड

डा. नरेश त्रेहन

अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक